फा.स.7(1)/2012-लेखा एवं क्रय भारत सरकार संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संसद भवन, नई दिल्ली।

तारीख: 17 सितंबर, 2012

सेवा में	

विषयः लेखन सामग्री मदों इत्यादि की खरीद - तत्संबंधी कोटेशन ।

महोदय,

इस मंत्रालय को समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार लेखन सामग्री इत्यादि की विभिन्न मदें खरीदनी हैं। निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर संलग्न सूची के अनुसार लेखन सामग्री की विभिन्न मदों की पूर्ति करने के लिए प्रामाणिक/प्रसिद्ध पूर्तिकारों को आरंभ में ठेके की तारीख से एक वर्ष की अविध के लिए दर ठेका देने का प्रस्ताव है:-

- (i) बोलीदाता दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लेखन सामग्री और अन्य मदों की आपूर्ति करने वाली एक ऐसी भारतीय कंपनी/फर्म होनी चाहिए जिसका दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यालय/शाखा हो।
- (ii) बोलीदाता एक प्राधिकृत डीलर होना चाहिए और यदि फर्म मदों की निर्माता नहीं है तो उसे इस टेंडर के लिए निर्माता से ठेके की पूरी अवधि तक वैध एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा (मूल प्रति संलग्न की जाएगी)।
- (iii) बोलीदाता को भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला हुआ होना चाहिए। इस निमित्त बोलीदाता द्वारा एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iv) इस सूची में उल्लिखित मदें समय-समय पर इस मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार हैं। इच्छुक पूर्तिकार एक या अधिक मदों के लिए कोटेशन दे सकते हैं। उन पर विचार केवल उन मदों के लिए किया जाएगा जिनके लिए वे कोटेशन देंगे।
- (v) प्रत्येक बोलीदाता को आगे उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति प्रस्तुत करनी अपेक्षित है (i) कंपनी/फर्म/स्वामित्व इत्यादि की कानूनी स्थिति सूचित करते हुए वर्तमान

मानकों के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र, (ii) सी.एस.टी./वी.ए.टी./टी.आई.एन. पंजीकरण प्रमाणपत्र, (iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान भरी गई आयकर विवरणियों की प्रतियां, (iv) पिछले तीन वर्षों के परिक्षित लेखा विवरण की प्रतियां। ऐसा न करने पर उनकी बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

- (vi) बोलीदाता को भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों को लेखन सामग्री और अन्य मदों की थोक में आपूर्ति करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए (पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त दो-दो खरीद आदेशों की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए)।
- (vii) बोलीदाता की कुल बिक्री पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान न्यूनतम रू.75.00 लाख प्रति वर्ष होनी चाहिए (वैध और प्रमाणित प्रमाण संलग्न किया जाए)।
- (viii) टेंडरदाता संलग्न सूची के अनुसार ही अपनी प्रति मद/यूनिट की दरें बिना शर्त के भेज सकते हैं। यदि दरें किसी यूनिट/बॉक्स, जिसमें एक से अधिक वस्तु हैं, के लिए हैं तो उस यूनिट/बॉक्स की मदें अभ्युक्ति कॉलम में विशिष्ट रूप से सूचित की जाएं और यदि किसी यूनिट की कीमत वजन पर आधारित है तो यूनिट का वजन भी सूचित किया जाए। कटिंग/दुबारा लेखन, यदि कोई हो तो उस पर टेंडरदाता के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए।
- (ix) पूर्तिकार संसद भवन में स्थित इस मंत्रालय के स्टोर में अथवा इस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में चुने गए किसी स्थान पर सामान को अपने जोखिम और लागत पर अच्छी अवस्था में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (x) मालिक/फर्म टेलीफोन के अतिरिक्त मोबाइल पर भी उपलब्ध होने चाहिए ताकि इस मंत्रालय से आपात मामलों में उन्हें फोन किया जा सके। अतः टेलीफोन नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर भी दिए जाएं।
- (xi) वस्तुओं की मात्रा निश्चित नहीं की गई है, क्योंकि खरीद एक साथ नहीं की जानी है। यह खरीद उपरोक्त अविध में कभी भी की जा सकती है और एक बार में खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा उसकी आवश्यकता पर निर्भर करेगी।
- (xii) पूर्तिकार को सामान की आपूर्ति उन्हें आदेश मिलने की तारीख से पांच दिनों के भीतर करनी पड़ेगी। यदि पूर्तिकार द्वारा स्वयं मदों का निर्माण/उत्पादन/मुद्रण किया जाना है तो यह सीमा सात दिन की होगी। यदि कोई पूर्तिकार अंतिम तारीख तक आपूर्ति करने में असफल रहता है तब ऐसे पूर्तिकार को बिल राशि के पांच प्रतिशत के बराबर राशि के अर्थदंड का सामना करना होगा।

- (xiii) सूची में उल्लिखित सभी वस्तुएं प्रामाणिक, उच्च गुणवता वाली और प्रसिद्ध कंपनी की होनी चाहिए। यदि मंत्रालय को पूर्ति की गई सामग्री अच्छे स्तर की नहीं पाई जाती है तो उसे लौटा दिया जाएगा और ऐसी पूर्ति के लिए संबंधित पूर्तिकार को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए मंत्रालय जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे पूर्तिकारों को दिण्डत किया जा सकता है जिसमें संबंधित फर्म को इस मंत्रालय द्वारा काली सूची में डाला जाना भी शामिल है।
- (xiv) इस मंत्रालय को ठेके की अवधि के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए ठेके को समाप्त करने का अधिकार होगा।
- (xv) चूँकि इस मंत्रालय की आवश्यकता तत्काल किस्म की होती है, यदि पूर्तिकार की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं अथवा वह सामान की पूर्ति तत्काल करने में समर्थ नहीं है, तो यह कार्य चूककर्ता पूर्तिकार के जोखिम पर किसी अन्य फर्म/पार्टी को सौंप दिया जाएगा। पूर्तिकारों को मंत्रालय को इस बात के लिए संतुष्ट करना पड़ेगा कि आपूर्ति शीघ्रता से की जाएगी।
- (xvi) इस कार्य का उत्तरदायित्व लेने के लिए इच्छुक फर्म के लिए यह अपेक्षित है कि इस कार्य के लिए अपनी क्षमता साबित करें और अपने किसी प्रतिष्ठित संगठन के पहले के ग्राहक से अपनी स्थिति और सुनाम (गुडविल) का प्रमाण-पत्र भी उस विभाग के अधिकारियों के नाम, पदनाम और टेलीफोन नम्बर का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करें। फर्म के पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। फर्म के पैन कार्ड की फोटोकॉपी के बिना प्रस्तुत की गई कोटेशन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी।
- (xvii) बोलियों के साथ धरोहर राशि के रूप में वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली के पक्ष में रू.30,000/- (रूपये तीस हजार केवल) का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न किया जाना चाहिए, जिसे निष्पादन प्रतिभूति के रूप में इस मंत्रालय द्वारा उस समय तक अपने पास रखा जाएगा जब तक ठेका लागू रहता है। तथापि, केंद्रीय भंडार/एन.सी.सी.एफ. को धरोहर राशि और पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करने से छूट दी जाएगी। असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। अन्य बातों के बराबर होने के नाते, खरीद संबंधी प्राथमिकता केंद्रीय भंडार/एन.सी.सी.एफ. को दी जाएगी, यदि इन सहकारियों द्वारा बताया गया मूल्य ठेके के पूरे कार्यकाल के लिए मान्य और एल.1 मूल्य के 10% के अंदर है और ये एल.1 मूल्य के बराबर मूल्य लगाने के इच्छुक हैं। इन सहकारियों को एल.1 मूल्य से अधिक मूल्य संबंधी कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

- (xviii) ठेका लेने के पश्चात, पूर्तिकार को ठेके की अविध के दौरान किसी वस्तु के लिए किसी भी पिरिस्थिति में अपने मूल्य बढ़ाने की अनुमित नहीं दी जाएगी। तथापि, यदि किसी मद की कीमत कम हो जाती है तो पूर्तिकार को मंत्रालय को सूचित करना होगा। जो विक्रेता संविदागत मूल्य पर किसी मद की आपूर्ति करने से मना करता है, उसे भविष्य में कोई ठेका न देने के अतिरिक्त इस मंत्रालय के विवेकानुसार दंडित किया जाएगा।
- (xix) कृपया अपनी बोली में इस बात के लिए विशेष उल्लेख करना सुनिश्चित करें कि ऊपर उल्लिखित निबंधन और शर्तें आपकी फर्म को पूरी तरह स्वीकार्य हैं।
- (xx) इस मंत्रालय के पास किसी अथवा सभी कोटेशन (कोटेशनों) को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार अथवा बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में इस मंत्रालय का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा। इस मंत्रालय के लिए न्यूनतम कोटेशन को स्वीकार करना बाध्यकर नहीं होगा और किसी बोलीदाता की कोटेशन की अस्वीकृति के कारण के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा।
- (xxi) बोलीदाताओं को बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तारीख की समाप्ति के पश्चात अपनी बोलियों में परिवर्तन या आशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

यदि उपरोक्त निबंधन और शर्तें स्वीकार्य हैं तो कोटेशनों को एक मोहरबंद लिफाफे में रखकर, जिसके ऊपर "लेखन सामग्री की खरीद हेतु कोटेशन" लिखा हो, देर से देर 5 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न 3.00 बजे तक अनुभाग अधिकारी (लेखा और क्रय) कमरा न. 93, संसद भवन (दूरभाष: 23034755) की अभिरक्षा में रखी टेंडर पेटी में जमा किया जा सकता है। उस समय तक प्राप्त कोटेशनों को विधिवत गठित समिति की उपस्थित में 5 अक्तूबर, 2012 को अपराह्न 3.30 बजे कमरा न. 92, संसद भवन, नई दिल्ली में खोला जाएगा।

भवदीय,

ह./-

(रामेश्वर प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 23034899

संसदीय कार्य मंत्रालय

यूनिट सीएसटी/वेट के अतिरिक्त) 1	क्र.सं.	मद का नाम	दर प्रति मद/	सीएसटी/वैट	ब्रांड
बाइन टेप (बड़े आकार की) 48 मि.मी. (वंडर 555) सेलो टेप 1" 65 मि.मी. (वंडर) सेलो टेप 12" 12 मि.मी.х 9 मीटर पक दर्जन कॉजी कट ग्लास एक दर्जन कॉजी कट ग्लास एक दर्जन साधारण ग्लास एक दर्जन सफेद इस्टर (बड़े आकार के -36" x36") पक दर्जन सफेद इस्टर (बड़े आकार के -36" x36") पक दर्जन पोले इस्टर (बड़े आकार के -36" x36") पक दर्जन पोले इस्टर (बड़े आकार के -36" x36") 11 पक दर्जन पोले इस्टर (बड़े आकार के -36" x36") 12 तॉलिया - एक्स्ट्रा थिक कोटल (आकार -40" x80") 13 तॉलिया - एक्स्ट्रा थिक कोटल (आकार -36" x72") 14 तॉलिया - एक्स्ट्रा थिक कोटल (आकार -24" x48") 15 हैंड टोंबल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-इस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनॉ तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड विल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग			यूनिट सीएसटी/वैट	की दर	इत्यादि
(वंडर 555) 2 सेलो टेप 1" 65 मि.मी. (वंडर) 3 सेलो टेप 1½" 12 मि.मी.х 9 मीटर 4 एक दर्जन कॉजी कट ग्लास 5 एक दर्जन साधारण ग्लास 6 छः कप और सॉसर का सैट 7 छः ग्लास कोस्टर के सेट का बॉक्स 8 एक दर्जन सफेद डस्टर (बंडे आकार के -36"x36") 9 एक दर्जन सफेद डस्टर (बंडे आकार के -24"x24") 10 एक दर्जन पीले डस्टर (बंडे आकार के -36" x36") 11 एक दर्जन पलोर डस्टर (पॉछा -36" x36") 12 तौंलिया - एक्स्ट्रा थिक कोटन (आकार -40" x80") 13 तौंलिया - एक्स्ट्रा थिक कोटन (आकार -24"x4") 14 तौंलिया - एक्स्ट्रा थिक कोटन (आकार -24" x48") 15 हैंड टॉवल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्तरा नॉन-इस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोर्नी तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग			के अतिरिक्त)		
2 सेलो टेप 1" 65 मि.मी. (वंडर) 3 सेलो टेप ½" 12 मि.मी.x 9 मीटर 4 एक दर्जन कॉजी कट ग्लास 5 एक दर्जन साधारण ग्लास 6 छः कप और सॉसर का सैट 7 छः ग्लास कोस्टर के सेट का बॉक्स 8 एक दर्जन सफेद इस्टर (बंडे आकार के -36"x36") 9 एक दर्जन सफेद इस्टर (बंडे आकार के -24"x24") 10 एक दर्जन पीले इस्टर (बंडे आकार के -36" x36") 11 एक दर्जन पलोर इस्टर (पॉछा -36" x36") 12 तौंलिया - एक्स्ट्रा थिक कोटन (आकार -40" x80") 13 तौंलिया - एक्स्ट्रा थिक कोटन (आकार -36" x72") 14 तौंलिया - एक्स्ट्रा थिक कोटन (आकार -24"x48") 15 हैंड टोंवल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्तरा नॉन-इस्ट इरेजर 18 अप्तरा नॉन-इस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोर्नी तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	1	ब्राउन टेप (बड़े आकार की) 48 मि.मी.			
3 सेलो टेप ½" 12 मि.मी.x 9 मीटर 4 एक दर्जन कॉजी कट ग्लास 5 एक दर्जन साधारण ग्लास 6 छः ग्लास कोस्टर के सेट का बॉक्स 8 एक दर्जन सफेद इस्टर (बंडे आकार के -36"x36") 9 एक दर्जन सफेद इस्टर (मध्यम आकार के -24"x24") 10 एक दर्जन पीले इस्टर (पॉछा -36"x36") 11 एक दर्जन पलोर इस्टर (पॉछा -36"x36") 12 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -40"x80") 13 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -36"x72") 14 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -24"x48") 15 हैंड टॉबल 16 इरेजर (खर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा लॉल-इस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा लॉल-इस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोलों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बौर्ड 21 मिल्टल/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पाली के जग		(वंडर 555)			
4 एक दर्जन कॉजी कट ग्लास 5 एक दर्जन साधारण ग्लास 6 छः कप और सॉसर का सैट 7 छः ग्लास कोस्टर के सेट का बॉक्स 8 एक दर्जन सफेद इस्टर (बड़े आकार के -36"x36") 9 एक दर्जन सफेद इस्टर (मध्यम आकार के -24"x24") 10 एक दर्जन पीले इस्टर (बड़े आकार के -36"x36") 11 एक दर्जन पतीर इस्टर (पॉछा -36"x36") 12 तौंलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -40"x80") 13 तौंलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -36"x72") 14 तौंलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -24"x48") 15 हैंड टॉचल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-इस्ट जंबी इरेजर 18 अप्सरा नॉन-इस्ट जंबी इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	2	सेलो टेप 1" 65 मि.मी. (वंडर)			
5 एक दर्जन साधारण ग्लास 6 छ: कप और सॉसर का सैट 7 छ: ग्लास कोस्टर के सेट का बॉक्स 8 एक दर्जन सफेद इस्टर (बड़े आकार के -36"x36") 9 एक दर्जन सफेद इस्टर (अध्यम आकार के -24"x24") 10 एक दर्जन पीले इस्टर (बड़े आकार के -36"x36") 11 एक दर्जन फ्लोर इस्टर (पॉछा -36"x36") 12 तॉलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -40"x80") 13 तॉलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -36"x72") 14 तॉलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -24"x48") 15 हैंड टॉवल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा लॉन-इस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा लॉन-इस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनॉ तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	3	सेलो टेप ½" 12 मि.मी.x 9 मीटर			
6 छ: कप और सोंसर का सैट 7 छ: ग्लास कोस्टर के सेट का बोंक्स 8 एक दर्जन सफेद डस्टर (बड़े आकार के -36"x36") 9 एक दर्जन सफेद डस्टर (मध्यम आकार के -24"x24") 10 एक दर्जन पीले डस्टर (बड़े आकार के -36"x36") 11 एक दर्जन फ्लोर डस्टर (पॉछा -36"x36") 12 तॉलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -40"x80") 13 तॉलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -36"x72") 14 तॉलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -24"x48") 15 हैंड टॉवल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा लॉन-डस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा लॉन-डस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोलॉ तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	4	एक दर्जन कॉजी कट ग्लास			
 ८ छः ग्लास कोस्टर के सेट का बॉक्स ८ एक दर्जन सफेद इस्टर (बड़े आकार के -36"x36") ८ एक दर्जन सफेद इस्टर (मध्यम आकार के -24"x24") ८ एक दर्जन पीले इस्टर (बड़े आकार के -36"x36") ८ एक दर्जन फ्लोर इस्टर (पॉछा -36"x36") ८ तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -40"x80") ८ तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -36"x72") ८ तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -24"x48") ८ हैंड टॉवल ६ इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) ८ अप्सरा नॉन-इस्ट जंबो इरेजर ८ अप्सरा नॉन-इस्ट इरेजर ८ फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) ८ फाइल बाई ८ फाइल बाई ८ मिन्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) ८ प्लास्टिक के साधारण पानी के जग 	5	एक दर्जन साधारण ग्लास			
8 एक दर्जन सफेद इस्टर (बड़े आकार के -36"x36") 9 एक दर्जन सफेद इस्टर (मध्यम आकार के -24"x24") 10 एक दर्जन पीले इस्टर (बड़े आकार के -36" x36") 11 एक दर्जन पलोर इस्टर (पॉछा -36" x36") 12 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -40" x80") 13 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -36" x72") 14 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -24" x48") 15 हैंड टॉचल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-इस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-इस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	6	छः कप और सॉसर का सैट			
(बंडे आकार के -36"x36") 9 एक दर्जन सफेद डस्टर (मध्यम आकार के -24"x24") 10 एक दर्जन पीले डस्टर (बंडे आकार के -36" x36") 11 एक दर्जन फ्लोर डस्टर (पॉछा -36" x36") 12 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -40" x80") 13 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -36" x72") 14 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -24" x48") 15 हैंड टॉवल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-डस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-डस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	7	छः ग्लास कोस्टर के सेट का बॉक्स			
9 एक दर्जन सफेद इस्टर (मध्यम आकार के -24"x24") 10 एक दर्जन पीले इस्टर (बड़े आकार के -36"x36") 11 एक दर्जन फ्लोर इस्टर (पींछा -36"x36") 12 तौंलिया - एक्स्ट्रा थिक काँटन (आकार -40"x80") 13 तौंलिया - एक्स्ट्रा थिक काँटन (आकार -36"x72") 14 तौंलिया - एक्स्ट्रा थिक काँटन (आकार -24"x48") 15 हैंड टाँवल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-इस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-इस्ट जंबो इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	8	एक दर्जन सफेद डस्टर			
(अध्यम आकार के -24"x24") 10 एक दर्जन पीले डस्टर (बंडे आकार के -36" x36") 11 एक दर्जन फ्लोर डस्टर (पींछा -36" x36") 12 तौंलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -40" x80") 13 तौंलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -36" x72") 14 तौंलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -24" x48") 15 हैंड टॉवल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-डस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-डस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग		(बड़े आकार के -36''x36'')			
10 एक दर्जन पीले डस्टर (बंडे आकार के -36" x36") 11 एक दर्जन फ्लोर डस्टर (पॉछा -36" x36") 12 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -40" x80") 13 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -36" x72") 14 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -24" x48") 15 हैंड टॉयल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-डस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-डस्ट इरेजर 19 फाइल कचर (दोनों तरफ छपे हुए) −(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	9	एक दर्जन सफेद डस्टर			
(बड़े आकार के -36" x36") 11 एक दर्जन फ्लोर डस्टर (पींछा -36" x36") 12 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक काँटन (आकार -40" x80") 13 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक काँटन (आकार -36" x72") 14 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक काँटन (आकार -24" x48") 15 हैंड टॉवल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-डस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-डस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग		(मध्यम आकार के -24''x24'')			
11 एक दर्जन फ्लोर इस्टर (पोंछा -36" x36") 12 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -40" x80") 13 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -36" x72") 14 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -24" x48") 15 हैंड टॉवल 16 इरेजर (खर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-इस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-इस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	10	एक दर्जन पीले डस्टर			
12 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक काँटन (आकार -40" x80") 13 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक काँटन (आकार -36" x72") 14 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक काँटन (आकार -24" x48") 15 हैंड टाँचल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-डस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-डस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) −(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग		(बड़े आकार के -36'' x36'')			
(आकार -40" x80") 13 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -36" x72") 14 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -24" x48") 15 हैंड टॉवल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-डस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-डस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	11	एक दर्जन फ्लोर डस्टर (पोंछा -36'' x36'')			
13 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -36" x72") 14 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -24" x48") 15 हैंड टॉवल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-डस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-डस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	12	तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन			
(आकार -36" x72") 14 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -24" x48") 15 हैंड टॉवल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-डस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-डस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग		(आकार -40'' x80'')			
14 तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन (आकार -24'' x48'') 15 हैंड टॉवल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-डस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-डस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) −(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	13	तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन			
(आकार -24" x48") 15 हैंड टॉवल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-डस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-डस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग		(आकार -36'' x72'')			
15 हैंड टॉवल 16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-डस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-डस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	14	तौलिया - एक्स्ट्रा थिक कॉटन			
16 इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर) 17 अप्सरा नॉन-डस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-डस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग		(आकार -24'' x48'')			
17 अप्सरा नॉन-डस्ट जंबो इरेजर 18 अप्सरा नॉन-डस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) −(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	15	हैंड टॉवल			
18 अप्सरा नॉन-इस्ट इरेजर 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	16	इरेजर (रबर) नटराज (621 प्लास्टो इरेजर)			
 19 फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल) 20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग 	17	अप्सरा नॉन-डस्ट जंबो इरेजर			
20 फाइल बोर्ड 21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	18	अप्सरा नॉन-डस्ट इरेजर			
21 मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर) 22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	19	फाइल कवर (दोनों तरफ छपे हुए) -(सैंपल)			
22 प्लास्टिक के साधारण पानी के जग	20	फाइल बोर्ड			
	21	मिल्टन/सैलो वाटर जग (5 लीटर)			
23 फादल हादल्दर	22	प्लास्टिक के साधारण पानी के जग			
50 14464 4446.27	23	फाइल बाइन्डर			

24	साधारण प्लास्टिक फोल्डर		
25	पेपर कलर फ्लैग (पेस्ट)		
	(50x4 रंगीन) =200 शीटें (लोंग फ्लैग)		
26	प्लास्टिक कलर फ्लैग (पेस्ट)		
27	चिपकने वाली पीली स्लिप (2"x2")		
28	चिपकने वाली पीली स्लिप (2"x3")		
29	चिपकने वाली पीली स्लिप (3"x3")		
30	चिपकने वाली पीली स्लिप (2"x5")		
31	फाइल बोर्ड सेपरेटर A4 साइज (सिंगल लीफ)		
	(लोक सभा ग्रीन बोर्ड/राज्य सभा रेड बोर्ड)		
	(एक्स्टरा थिक)		
32	डाक पैड		
33	सिग्नेचर पैड		
34	ग्लू स्टिक 560 जेड/15 जी नेट (कोरस)		
35	ग्लू स्टिक 560 जेड/30 जी नेट (कोरस)		
36	जेम क्लिप-35840 एम.एम. (बड़ा आकार)		
	ओमेक्स क्लिप		
37	जेम क्लिप - छोटा आकार		
38	जेम क्लिप प्लास्टिक कोटेड (ग्लोब क्लिप्स)		
39	आलपिन्स पैकेट (बैल)		
40	गोंद की ट्यूब (कोरस)		
41	गोंद की बोतल (बड़े आकार की -700 मि.ली.)		
	-कोरस		
42	गोंद की बोतल		
	(छोटे आकार की - 150 मि.ली.) -कोरस		
43	ऑडियो टेप कैसेट्स		
44	हाई लाइटर (लक्सर)		
45	हाइलाइटर- (रेनोल्ड हाइलाइटर-323)		
46	सेल्फ इंकिग स्टेम्प पैड		
	(सुप्रीम डीलक्स-मीडियम)		
47	सेल्फ इंकिग स्टेम्प पैड (सुप्रीम डीलक्स-बड़ा)		
48	ऐंड जैल पैन पी.जी. 500		
49	जॉटर पैन		
50	नोटशीट पैड (ग्रीन - नीरज)		
	75 जी.एस.एम. पेपर साइज (सैंपल)		

51	पायलट पैन वी-5	
52	पायलट पैन हाईटेक प्वाइंट 05	
53	पायलट पैन हाईटेक प्वाइंट वी.आर.5	
54	पायलट पैन हाईटेक प्वाइंट वी.आर.7	
55	पायलट पैन वी. बाल ग्रिप ०५	
56	पायलट पैन वी. बाल ग्रिप 07	
57	पायलट पैन वी. बाल ग्रिप 10	
58	पायलट पैन वी.आर. बाल 05	
59	पायलट पैन वी. साइनपेन	
60	पायलट पैन हाईटेक प्वाइंट वी.5 ग्रिप	
61	पायलट पैन हाईटेक प्वाइंट वी.7 ग्रिप	
62	पायलट पैन हाईटेक प्वाइंट बी.10 ग्रिप	
63	फोर्ट फैन्सी जैल 0.5 बाल पैन	
64	पेन्सिल (नटराज - एच.बी.)	
65	पैन्सिल (अप्सरा प्लेटिनम एक्स्ट्रा डार्क)	
66	पैन्सिल (अप्सरा गोल्ड)	
67	रेनोल्ड प्रिमीयर पैन	
68	जेट स्ट्रीम पैन	
69	जेबरा जेब रोलर पैन	
70	फन पैन्सिल	
71	फन पैन्सिल इरेजर के साथ	
72	चैलपार्क रॉयल ब्लू (60 मि.लि.बोतल)	
73	सैलो प्वाइंटेक पैन 0.5	
74	सैलो फ्री फ्लो जैल पैन	
75	पैन यूनीबॉल फाइन डिलक्स यू.बी177	
76	जोटर रिफिल	
77	रेनोल्ड पैन	
78	पैन यूनीबॉल-माइक्रो यू.बी150	
79	पेपर कटर	
80	पंच मशीन सिंगल- (आयरन)	
81	पंच मशीन डबल- (आयरन)	
82	साबुन (लक्स) 100 ग्राम	
83	साबुन केस कवर सहित (डिस्क) प्लास्टिक	
84	हरिसन ब्रास लॉक (छोटे)	
85	परमानेन्ट मार्कर (लक्सर)	
_		

86	हाइलाइटर(फेबर-कास्टैल टेक्सट		
	लाइनर 48 रीफिल)		
87	राइटिंग पैड (साधारण) ए-5 साइज - नीलगगन		
88	राइटिंग पैड (साधारण) ए-5 साइज (प्रिंटिंग		
	सहित जैसे कि मंत्रालय का नाम, स्थान इत्यादि)		
89	राइटिंग पैड (साधारण) ए-4 साइज		
90	स्पाइरल राइटिंग पैड ए-5 साइज		
91	स्पाइरल राइटिंग पैड ए-5 साइज (प्रिंटिंग सहित)		
92	स्पाइरल राइटिंग पैड (पॉकेट साइज)		
93	स्टेपल मशीन (छोटी कंगारू - 10)		
94	स्टेपल मशीन (छोटी कंगारू - 10डी)		
95	स्टेपल मशीन (छोटी कंगारू - एच.एसई.10)		
96	स्टेपल मशीन (मध्यम कंगारू - 555)		
97	स्टेपल मशीन (बड़ी एच.डी23 मैक्स)		
98	स्टेपलर पिन (बड़े आकार की एच.डी.)-(मैक्स)		
99	स्टेपलर पिन (मध्यम आकार - कंगारू)-(मैक्स)		
100	स्टेपलर पिन (छोटा आकार) (मैक्स)		
101	स्केच पैन (लक्सर)		
102	पेपर वेट (ग्लास)		
103	स्केल प्लास्टिक (फुटर-डीलक्स बास) - 12"		
104	सीडी मार्कर		
	(फेबर-कास्टैल मल्टीमार्क 0.8 मि. मी.)		
105	शार्पनर (नटराज)		
106	अप्सरा लोंग प्वाइंट शार्पनर		
107	कैंची - केबीका क्वीन (आकार 16.5 से.मी.)		
108	सोलो रिंग बाइंडर फोल्डर (401)		
109	सोलो रिंग बाइंडर फोल्डर (404)		
110	सोलो प्लास्टिक फोल्डर (पारदर्शी)		
111	सीलिंग वैक्स		
112	मोमबत्ती पैकेट (मोटी और लंबी) – सेंपल		
113	टेग का बन्डल		
114	धागे की बाल		
115	बड़े आकार की सुई		
116	व्हाइट फ्लूड (कोरस)		
117	रूम फ्रेशनर - यार्डले-200 मि.ली.		

118	रूम फ्रेशनर - प्रिमीयम -200 मि.ली.		
119	ईगल/सेलो/मिल्टन थरमस-1 लिटर		
120	रूल्ड रजिस्टर (12 क्वायर) लेदर बाउंडिड		
121	रूल्ड रजिस्टर (10 क्वायर) लेदर बाउंडिड		
122	रूल्ड रजिस्टर (८ क्वायर) लेदर बाउंडिड		
123	रूल्ड रजिस्टर (६ क्वायर)		
124	रूल्ड रजिस्टर (४ क्वायर)		
125	रूल्ड रजिस्टर (२ क्वायर)		
126	रूल्ड रजिस्टर (1 क्वायर)		
127	शॉर्ट हैंड नोट बुक पैड (नीलगगन)		
128	डी.ओ. लेटर हेड (ए-4 साइज) (जर्मन डी.ओ.		
	पेपर - एक रंग में प्रिंटिड)		
129	डी.ओ. लेटर हेड (ए-4 साइज) (रॉयल		
	एक्सीक्युटिव बोंड पेपर - एक रंग में प्रिंटिड)		
130	डी.ओ. लेटर हेड (ए-4 साइज) (जर्मन डी.ओ.		
	पेपर - लाल/नीले रंग में प्रिंटिड गोल्डन लीफ		
	एम्बलम सहित)		
131	डी.ओ. लेटर हेड (ए-4 साइज) (रॉयल		
	एक्सीक्युटिव बोंड पेपर - लाल/नीले रंग में		
	प्रिंटिड गोल्डन लीफ एम्बलम सहित)		
132	डी.ओ. लेटर हेड (ए-5 साइज)		
	(जर्मन डी.ओ. पेपर - एक रंग में प्रिंटिड)		
133	डी.ओ. लेटर हेड (ए-5 साइज) (रॉयल		
	एक्सीक्युटिव बोंड पेपर - एक रंग में प्रिंटिड)		
134	डी.ओ. लेटर हेड (ए-5 साइज)		
	(जर्मन डी.ओ. पेपर - लाल/नीले रंग में प्रिंटिड		
	गोल्डन लीफ एम्बलम सहित)		
135	डी.ओ. लेटर हेड (ए-5 साइज)		
	(रॉयल एक्सीक्युटिव बोंड पेपर - लाल रंग में		
	प्रिंटिड गोल्डन लीफ एम्बलम सहित)		
136	अ.शा. पत्रों के लिए छपे हुए लिफाफे	 	
	(एस.ई६ साइज)	 	
137	अ.शा. पत्रों के लिए छपे हुए लिफाफे (गम		
	स्टीकर सहित) (एस.ई6 साइज)	 	
138	अ.शा. पत्रों के लिए छपे हुए विंडों लिफाफे		
	(एस.ई६ साइज)		

139	अ.शा. पत्रों के लिए छपे हुए विंडों लिफाफे (गम		
	स्टीकर सहित) (एस.ई6 साइज)		
140	डाक के लिए छपे हुए भूरे लिफाफे (एस ई 6		
	आकार के) (सेंपल)		
141	डाक के लिए छपे हुए भूरे लिफाफे (एस ई 7		
	आकार के)		
142	डाक के लिए छपे हुए भूरे लिफाफे (एस ई 8		
	आकार के) (फाइल साइज)		
143	डाक के लिए छपे हुए भूरे लिफाफे (एसई 8		
	आकार के) (फाइल साइज) (अंदर कपड़ा चिपका		
	हुआ)		
144	डयूरा सैल 'ए.ए.'		
145	रिमोट सैल 'ए.ए.ए.' एवरेडी		
146	पैंसिल सैल 'ए.ए.' एवरेडी		
147	सैल बड़े 'ए' एवरेडी		
148	इमरजेंसी रीचार्जेबल लाइट (12 वोल्ट)		
149	एल.ई.डी. लाईट टॉर्च		
150	कोलीन (500 मी.ली. बोतल)		
151	कोलीन (२०० मी.ली. बोतल)		
152	स्टील का पॉकर		
153	एड जैल अचीवर पैन		
154	विम पाउडर पैकेट		
155	कैल्कुलेटर कैसियो (बड़े आकार का – 12 डिजिट)		
156	कैल्कुलेटर कैसियो		
	(मध्यम आकार का – 10 डिजिट)		
157	माउस पैड		
158	हथोड़ी (250 ग्राम)		
159	हथोड़ी (७५० ग्राम)		
160	ऑप्टीकल स्क्रोल माउस		
161	करेक्शन पैन यूनी (कोरस)		
162	डेटर सहित पैन स्टैंड (दो पैन सहित)		
163	डेटर सहित पैन स्टैंड (चार पैन सहित)		
164	हिट मोस्कीटो		
165	हिट कोकरोच		
166	ऑल आउट मशीन		

168 नेफ्थालीन बाल पैकेट (प्रति कि.ग्रा.) 169 यूरीनल बॉल्स पैकेट (प्रति कि.ग्रा.) 170 बेगॉन स्प्रे लिक्विड (1 लीटर टीन) 171 फिनाईल (5 लीटर टीन) 172 डेटॉल लिक्विड सोप 173 प्लास्टिक की बाल्टी (20 लीटर) 174 हार्पिक (500 मी.ली. बोतल) 175 हार्पिक (200 मी.ली. बोतल) 176 ओडोनील 177 लंदे प्रतिन स्प्रिप्त प्रतिन साराप्त	
170 बेगॉन स्प्रे लिक्विड (1 लीटर टीन) 171 फिनाईल (5 लीटर टीन) 172 डेटॉल लिक्विड सोप 173 प्लास्टिक की बाल्टी (20 लीटर) 174 हार्पिक (500 मी.ली. बोतल) 175 हार्पिक (200 मी.ली. बोतल)	
171 फिनाईल (5 लीटर टीन) 172 डेटॉल लिक्विड सोप 173 प्लास्टिक की बाल्टी (20 लीटर) 174 हार्पिक (500 मी.ली. बोतल) 175 हार्पिक (200 मी.ली. बोतल)	
172 डेटॉल लिक्विड सोप 173 प्लास्टिक की बाल्टी (20 लीटर) 174 हार्पिक (500 मी.ली. बोतल) 175 हार्पिक (200 मी.ली. बोतल) 176 ओडोनील	
173 प्लास्टिक की बाल्टी (20 लीटर) 174 हार्पिक (500 मी.ली. बोतल) 175 हार्पिक (200 मी.ली. बोतल) 176 ओडोनील	
174 हार्पिक (500 मी.ली. बोतल) 175 हार्पिक (200 मी.ली. बोतल) 176 ओडोनील	
175 हार्पिक (200 मी.ली. बोतल) 176 ओडोनील	
176 ओडोनील	
177 जंगे परीज सिए परिज गराम	
177 लंबे स्टील ग्रिप सहित वाइपर	
178 ब्र्म फूल	
179 ब्रूम स्टिक्स	
180 डस्टबीन (प्लास्टिक)	
181 फाइल ट्रे प्लास्टिक	
182 फेस टिशु पेपर पैकेट	
183 प्रिंटिड स्लिप (अति तत्काल इत्यादि)	
184 अगरबत्ती पैकेट	
185 पेपर वेट प्लास्टिक	
186 एक्सटेंशन कोई 15 ए.एम.पी. (धातू की बनी) 3	
पिन प्लग सहित	
187 एक्सटेंशन कोई 5 ए.एम.पी. (धात् की बनी) 3	
पिन प्लग सहित	
188 स्पाईरल राइटिंग पैड (पॉकेट साइज) (कलर पेपर)	
189 फाइल साइज के पीले लिफाफे (मोटे कागज के)	
190 फाइल साइज के पीले लिफाफे (मोटे कागज के)	
गम स्टीकर सहित	
191 एस.ई.७ आकार के पीले लिफाफे (मोटे कागज के)	
192 एस.ई.७ आकार के पीले लिफाफे (मोटे कागज के)	
गम स्टीकर सहित	
193 एस.ई.६ आकार के पीले लिफाफे (मोटे कागज के)	
194 एस.ई.6 आकार के पीले लिफफे (मोटे कागज के)	
गम स्टीकर सहित	
195 पोस्ट कार्ड आकार के सफेद लिफाफे	
196 एस.ई.६ आकार के सफेद लिफाफे	

198 सैमसंग व्लैक कलर कंप्यूटर की-बोर्ड 199 एड जैल जिप्सी पैन 200 रेनोल्ड एरेंट आर. पैन 201 रेनोल्ड जेट प्रीमियर गोल्ड पैन 202 रेनोल्ड जेट प्रीमियर गोल्ड पैन 203 रेनोल्ड जेट क्रीम-एक्स पैन 204 रेनोल्ड केट क्रीम-एक्स पैन 205 माचिस बोक्स पैकेट 206 फेवी क्विक टयूव 207 फेवी क्विक टयूव 207 फेवी क्विक (छोटा पैक) 208 चपरासी बही 209 छोटा प्लास्टिक स्केल (६ इंच) 210 यूनीबाल हुम्पेक्ट पैन 211 बोर्ड पिन (ब्रास) पैकेट 212 रेनोल्ड पैन रिफिल 213 लोग बुक रिजस्टर (12 क्वायर) 214 अल्फाबेटिकल राजस्टर 215 यूनीबाल विजन एलाइट पैन 216 जेट स्ट्रीम पैन रिफिल 217 पेटेक रोकर जैल पैन 218 यूनीबाल किरानो ब्राड पैन 219 पोर्कर पैन रिफिल 210 पंकर पैन रिफिल 211 पंकर पैन रिफिल 212 प्रीचाल किरानो ब्राड पैन 213 यूनीबाल किरानो ब्राड पैन 214 प्रीचाल किरानो ब्राड पैन 215 यूनीबाल किरानो ब्राड पैन 216 जेट स्ट्रीम पैन रिफिल 217 पंकर पैन रिफिल 218 यूनीबाल किरानो ब्राड पैन 219 प्राक्त प्रीक्ष पूनी प्रीचिल 220 पार्कर पैन रिफिल 221 प्राक्त कल्यू जैल पैन 222 ट्राईंड पैनड्राइव (1 जी.वी.) 223 ट्राईंड पैनड्राइव (3 जी.वी.) 224 ट्राईड पैनड्राइव (4 जी.वी.) 225 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.वी.) 226 किंगसटन पैनड्राइव (1 जी.वी.) 227 आईबाल पैनड्राइव (1 जी.वी.) 228 किंगसटन पैनड्राइव (2 जी.वी.) 230 किंगसटन पैनड्राइव (2 जी.वी.)	197	एस.ई.७ आकार के सफेद लिफाफे		
199 एड जैल जिप्सी पैन 200 रेलोल्ड एसेंट आर. पैन 201 रेलोल्ड जेट प्रीमियर गोल्ड पैन 202 रेलोल्ड जेट मेटालिका एफ.एसस. पैन 203 रेलोल्ड जेट मेटालिका एफ.एसस. पैन 204 रेलोल्ड जेट मोम-एक्स पैन 205 माचिस वोक्स पैकेट 206 फेवी क्वियक ट्यूव 207 फेवी क्वियक (छोटा पैक) 208 चपरासी बही 209 छोटा प्लास्टिक स्केल (६ इंच) 210 यूलीबाल जैल इम्पैक्ट पैन 211 बोई पिन (ब्रास) पैकेट 212 रेलोल्ड पैन रीफिल 213 लोग वुक रजिस्टर (12 क्वायर) 214 अत्फाविटका रजिस्टर 215 यूलीबाल विजन एलाइट पैन 216 जैट स्ट्रीम पैन रीफिल 217 पेटेक रोलर जैल रैन 218 यूलीबाल सिगलो ब्राइ पैन 219 मोल्टेक्स कल्यू जैल पैन 210 पार्कर पैन रीफिल 211 व्हाइव (1 जी.बी.) 222 ट्रॉसेंड पैनडाइव (4 जी.बी.) 223 आईबाल पैनडाइव (4 जी.बी.) 224 आईबाल पैनडाइव (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनडाइव (3 जी.बी.) 226 अईबाल पैनडाइव (4 जी.बी.) 227 आईबाल पैनडाइव (4 जी.बी.) 228 किंम्सटन पैनडाइव (4 जी.बी.)	198	सैमसंग ब्लैक कलर कंप्यूटर की-बोर्ड		
201 रेतोल्ड जेट प्रीक्षियर गोल्ड पैत 202 रेतोल्ड जेट मेटालिका एफ.एक्स. पैत 203 रेतोल्ड जेट क्रोम-एक्स पैत 204 रेतोल्ड जेट क्रोम-एक्स पैत 205 माचिस बॉक्स पैकेट 206 फेवी क्वियक टयूब 207 फेवी क्वियक (डोटा पैक) 208 चपरासी बही 209 छोटा प्लास्टिक स्केल (6 इंच) 210 यूतीवाल जैत इम्पैक्ट पैत 211 बोर्ड पित (ब्रास) पैकेट 212 रेतोल्ड पैत रीफिल 213 लोग युक रजिस्टर (12 क्वायर) 214 अत्फावेटिकल रजिस्टर 215 यूतीवाल विजन एलाइट पैत 316 सेट स्ट्रीम पैत रीफिल 217 पेंटेक रोलर जैल पैत 218 यूतीवाल सिगनो ब्राड पैत 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैत 210 प्रके पैत रीफिल 211 वर्गिक जिस्को प्रती-106जैंड पैत 212 प्रतीवाल किरको यू.वी106जैंड पैत 222 प्रतेष उत्तर जैल पैत 223 ट्रॉसेंड पैतझइव (2 जी.वी.) 224 ट्रॉसेंड पैतझइव (4 जी.वी.) 225 आईबाल पैतझइव (4 जी.वी.) 226 किंग्सटन पैतझइव (4 जी.वी.) 227 आईबाल पैतझइव (1 जी.वी.) 230 किंगसटन पैतझइव (3 जी.वी.)	199	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
202 रेतोल्ड जेट मेटालिका एफ.एक्स. पैन 203 रेतोल्ड जेट कोम-एक्स पैन 204 रेतोल्ड कॉन्टेक्ट सोफ्ट पैन 205 माचिस बॉक्स पैकेट 206 फेवी क्विक ट्यूब 207 फेवी क्विक (छोटा पैक) 208 चपरासी बही 209 छोटा प्लास्टिक स्केल (६ इंच) 210 यूलीबात जैल इम्पैक्ट पैन 211 बोई पिन (ब्रास) पैकेट 212 रेतोल्ड पैन रिफिल 213 लोग बुक रजिस्टर (12 क्यायर) 214 अल्फाबेटिकत रजिस्टर 215 यूतीबात विजन एलाइट पैन 216 जेट स्ट्रीम पैन रिफिल 217 पेटेक रोतर जैन पैन 218 यूतीबात सिगनो ब्राइ पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 210 पार्कर पैन रीफिल 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूतीबात जिरको यू.वी106जैड पैन 222 ट्रॉसेंड पैनड्राइच (1 जी.वी.) 223 ट्रॉसेंड पैनड्राइच (4 जी.वी.) 224 आईबात पैनड्राइच (4 जी.वी.) 225 आईबात पैनड्राइच (4 जी.वी.) 226 किंग्सटन पैनड्राइच (4 जी.वी.) 227 माईबात पैनड्राइच (4 जी.वी.) 228 किंगसटन पैनड्राइच (4 जी.वी.)	200	रेनोल्ड एसेंट आर. पैन		
203 रेतोल्ड जेट कोम-एक्स पैन 204 रेतोल्ड कॉन्टेक्ट सोफ्ट पैन 205 माचिस बॉक्स पैकेट 206 फेची क्विक ट्यूब 207 फेची क्विक ट्यूब 207 फेची किवक (छोटा पैक) 208 चपरासी बही 209 छोटा प्लास्टिक स्केल (6 इंच) 210 यूनीबाल जैल इम्पैक्ट पैन 211 बोई पिन (ब्रास) पैकेट 212 रेतोल्ड पैन रेफिल 213 लोग बुक रजिस्टर (12 क्यायर) 214 अल्फाबेटिकल रजिस्टर 215 यूनीबाल विजन एलाइट पैन 216 जैट स्ट्रीम पैन रीफिल 217 पेंटेक रोतर जैन पैन 218 यूनीबाल सिगनो ब्राइ पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 210 पार्कर पैन रीफिल 221 यूनीबाल जिरको यू.बी106जैड पैन 222 ट्रॉसेंड पैनझाइव (1 जी.बी.) 223 ट्रॉसेंड पैनझाइव (2 जी.बी.) 224 ट्रॉसेंड पैनझाइव (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनझाइव (4 जी.बी.) 226 किंग्सटन पैनझाइव (4 जी.बी.) 227 आईबाल पैनझाइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनझाइव (4 जी.बी.)	201	रेनोल्ड जेट प्रीमियर गोल्ड पैन		
204 रेनोल्ड कॉन्टेक्ट सोफ्ट पैन 205 माचिस बॉक्स पैकेट 206 फेवी क्विक टयूव 207 फेवी क्विक (छोटा पैक) 208 चपरासी बही 209 छोटा प्लास्टिक स्केल (६ इंघ) 210 यूलीबाल जैल इम्पैक्ट पैन 211 बोई पिन (ब्रास) पैकेट 212 रेनोल्ड पैन रीफिल 213 लोग युक रजिस्टर (12 क्वायर) 214 अल्फाबेटिकल रजिस्टर 215 यूनीबाल विजन एलाइट पैन 216 जैट स्ट्रीम पैन रीफिल 217 पैटेक रोलर जैल पैन 218 यूनीबाल सिगनो ब्राड पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूनीबाल किरको यू.वी106जैंड पैन 222 ट्रांसैंड पैनझाइव (1 जी.बी.) 223 ट्रांसैंड पैनझाइव (3 जी.बी.) 224 ट्रांसैंड पैनझाइव (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनझइव (1 जी.बी.) 226 आईवाल पैनझइव (4 जी.बी.) 227 आईवाल पैनझइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटल पैनझइव (1 जी.बी.) 229 किंग्सटल पैनझइव (2 जी.बी.)	202	रेनोल्ड जेट मेटालिका एफ.एक्स. पैन		
205 माचिस बॉक्स पैकेट 206 फेची क्विंक टयूव 207 फेची क्विंक (छोटा पैंक) 208 धरारासी बही 209 छोटा प्लास्टिक स्केल (६ इंच) 210 यूनीवाल जैल इम्पैक्ट पैन 211 बोर्ड पिन (ब्रास) पैकेट 212 रेनोल्ड पैन रीफिल 213 लोग बुक रजिस्टर (12 क्वायर) 214 अल्फाबेटिकल रजिस्टर 215 यूनीवाल विजन एलाइट पैन 216 जैट स्ट्रीम पैन रीफिल 217 पेंटेक रोलर जैल पैन 218 यूनीवाल सिगनो ब्राड पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 210 पार्कर पैन रीफिल 211 प्रंतिक राजिस्टर 212 इंसेंड पैनझइव (1 जी.बी.) 213 व्राईवाल पिनझइव (4 जी.बी.) 214 अल्फाबेटिकल पंजिस्टर 215 यूनीवाल करको यू.बी106जैंड पैन 216 व्राईवाल करको यू.बी106जैंड पैन 217 प्रंतिक तरको प्रंती:-106जैंड पैन 218 व्राईवाल पिनझइव (2 जी.बी.) 219 आईवाल पेनझइव (4 जी.बी.) 220 आईवाल पेनझइव (4 जी.बी.) 231 आईवाल पेनझइव (4 जी.बी.) 232 व्राईवाल पेनझइव (4 जी.बी.) 233 व्राईवाल पेनझइव (4 जी.बी.) 244 व्राईवाल पेनझइव (4 जी.बी.) 255 आईवाल पेनझइव (4 जी.बी.)	203	रेनोल्ड जेट क्रोम-एक्स पैन		
206 फेवी क्यिक ट्यूव 207 फेवी क्यिक (छोटा पैक) 208 चपरासी बही 209 छोटा प्लास्टिक स्केल (6 इंच) 210 यूनीबाल जैल इम्पैक्ट पैन 211 बोर्ड पिन (ब्रास) पैकेट 212 पेनोल्ड पैन रीफिल 213 लोग बुक रजिस्टर (12 क्वायर) 214 अल्फावेटिकत रजिस्टर 215 यूनीबाल विजन एलाइट पैन 216 जैट स्ट्रीम पैन रीफिल 217 पेटेंक रोलर जैन पैन 218 यूनीबाल सिगनो ब्राड पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूनीबाल जिरको यूबी106जैंड पैन 222 ट्रांसैंड पैनड्राइव (1 जी.बी.) 223 ट्रांसैंड पैनड्राइव (2 जी.बी.) 224 प्राईवाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 226 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.) 227 आईबाल पैनड्राइव (2 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.)	204	रेनोल्ड कॉन्टेक्ट सोफ्ट पैन		
207 फेवी क्विक (छोटा पैक) 208 चपरासी बही 209 छोटा प्लास्टिक स्केल (6 इंच) 210 यूनीबात जैल इम्पेक्ट पैन 211 बोर्ड पिन (ब्रास) पैकेट 212 रेनोल्ड पैन रीफिल 213 लोग बुक रजिस्टर (12 क्वायर) 214 अल्फाबेटिकल रजिस्टर 215 यूनीबात विजन एलाइट पैन 216 जैट स्ट्रीम पैन रीफिल 217 पेंटेक रोलर जैल पैन 218 यूनीबात सिगनो ब्राड पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूनीबात जिरको यूबी106जैंड पैन 222 ट्रांसैंड पैनड्राइव (1 जी.बी.) 223 ट्रांसैंड पैनड्राइव (4 जी.बी.) 224 ट्रांसैंड पैनड्राइव (4 जी.बी.) 225 आईबात पैनड्राइव (4 जी.बी.) 226 ऑक्डाल पैनड्राइव (1 जी.बी.) 227 आईबात पैनड्राइव (1 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.) 239 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.)	205	माचिस बॉक्स पैकेट		
208 चपरासी वहीं 209 छोटा प्लास्टिक स्केल (6 इंच) 210 यूलीवाल जैल इम्पेक्ट पैन 211 बोई पिन (ब्रास) पैकेट 212 रेनोल्ड पैन रीफिल 213 लोग बुक रजिस्टर (12 क्वायर) 214 अरुफाबेटिकल रजिस्टर 215 यूलीवाल विजन एलाइट पैन 216 जैट स्ट्रीम पैन रीफिल 217 पेंटेक रोलर जैल पैन 218 यूलीवाल सिगनो ब्राड पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूलीवाल जिरको यू.वी106जैड पैन 222 ट्रॉसेंड पैनड्राइव (1 जी.वी.) 223 ट्रॉसेंड पैनड्राइव (2 जी.वी.) 224 प्राईबाल पैनड्राइव (4 जी.वी.) 225 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.वी.) 226 फिंग्सटन पैनड्राइव (1 जी.वी.) 227 आईबाल पैनड्राइव (1 जी.वी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.वी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.वी.)	206	फेवी क्विक टयूब		
209 छोटा प्लास्टिक स्केल (6 इंच) 210 यूनीबाल जैल इम्पैक्ट पैन 211 बोर्ड पिन (ब्रास) पैकेट 212 रेनोल्ड पैन रीफिल 213 लोग बुक रजिस्टर (12 क्वायर) 214 अल्फाबेटिकल रजिस्टर 215 यूनीबाल विजन एलाइट पैन 216 जैट स्ट्रीम पैन रीफिल 217 पेंटेक रोलर जैल पैन 218 यूनीबाल सिगनो ब्राड पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूनीबाल जिरको यू.वी106जैड पैन 222 द्रांसैंड पैनझइव (1 जी.बी.) 223 द्रांसैंड पैनझइव (2 जी.बी.) 224 द्रांसैंड पैनझइव (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनझइव (4 जी.बी.) 226 आईबाल पैनझइव (4 जी.बी.) 227 आईबाल पैनझइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनझइव (2 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनझइव (2 जी.बी.) 230 किंग्सटन पैनझइव (4 जी.बी.) 230 किंगसटन पैन	207	फेवी क्विक (छोटा पैक)		
210 यूनीबाल जैल इम्पेक्ट पैन 211 वोर्ड पिन (ब्राप्त) पैकेट 212 रेनोल्ड पैन रीफिल 213 लोग बुक रजिस्टर (12 क्वायर) 214 अल्फाबेटिकल रजिस्टर 215 यूनीबाल विजन एलाइट पैन 216 जैट स्ट्रीम पैन रीफिल 217 पेटेक रोलर जैल पैन 218 यूनीबाल सिगनो ब्राड पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूनीबाल जिरको यू.बी106जैड पैन 222 ट्रांसैंड पैनड्राइव (1 जी.बी.) 223 ट्रांसैंड पैनड्राइव (2 जी.बी.) 224 ट्रांसैंड पैनड्राइव (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 226 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 227 आईबाल पैनड्राइव (1 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.) 230 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.)	208	चपरासी बही		
211 बोर्ड पिन (ब्रास) पैकेट 212 रेनोल्ड पैन रीफिल 213 लोग बुक रजिस्टर (12 क्वायर) 214 अल्फाबेटिकल रजिस्टर 215 यूनीबाल विजन एलाइट पैन 216 जैट स्ट्रीम पैन रीफिल 217 पेंटेक रोलर जैल पैन 218 यूनीबाल सिगनो ब्राड पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूनीबाल जिरको यू.बी106जैड पैन 222 ट्रांसैंड पैनझइव (1 जी.बी.) 223 ट्रांसैंड पैनझइव (2 जी.बी.) 224 ट्रांसैंड पैनझइव (1 जी.बी.) 225 आईबाल पैनझइव (2 जी.बी.) 226 आईबाल पैनझइव (4 जी.बी.) 227 आईबाल पैनझइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनझइव (1 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनझइव (2 जी.बी.)	209	छोटा प्लास्टिक स्केल (6 इंच)		
212 रेनोल्ड पैन रिफिल 213 लोग बुक रजिस्टर (12 क्वायर) 214 अल्फाबेटिकल रजिस्टर 215 यूनीवाल विजन एलाइट पैन 216 जेट स्ट्रीम पैन रिफिल 217 पेंटेक रोतर जैल पैन 218 यूनीवाल सिगनो ब्राड पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूनीवाल जिरको यू.वी106जैड पैन 222 ट्रांसैंड पैनझइव (1 जी.वी.) 223 ट्रांसैंड पैनझइव (2 जी.वी.) 224 ट्रांसैंड पैनझइव (1 जी.वी.) 225 आईवाल पैनझइव (1 जी.वी.) 226 आईवाल पैनझइव (1 जी.वी.) 227 आईवाल पैनझइव (1 जी.वी.) 228 किंग्सटन पैनझइव (1 जी.वी.) 229 किंग्सटन पैनझइव (2 जी.वी.)	210	यूनीबाल जैल इम्पैक्ट पैन		
213 लोग बुक रजिस्टर (12 क्वायर) 214 अल्फाबेटिकल रजिस्टर 215 यूनीवाल विजन एलाइट पैन 216 जैट स्ट्रीम पैन रीफिल 217 पेंटेक रोलर जैल पैन 218 यूनीवाल सिगनो ब्राइ पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूनीवाल जिरको यू.बी106जैंड पैन 222 ट्रांसैंड पैनड्राइव (1 जी.बी.) 223 ट्रांसैंड पैनड्राइव (2 जी.बी.) 224 ट्रांसैंड पैनड्राइव (4 जी.बी.) 225 आईवाल पैनड्राइव (2 जी.बी.) 226 आईवाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 227 आईवाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.)	211	बोर्ड पिन (ब्रास) पैकेट		
214 अल्फाबेटिकल रजिस्टर 215 यूतीबाल विजन एलाइट पैन 216 जैट स्ट्रीम पैन रीफिल 217 पेंटेक रोलर जैल पैन 218 यूतीबाल सिगनो ब्राड पैन 218 यूतीबाल सिगनो ब्राड पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूतीबाल जिरको यू.बी106जैड पैन 222 ट्रांसैंड पैनड्राइव (1 जी.बी.) 223 ट्रांसैंड पैनड्राइव (2 जी.बी.) 224 ट्रांसैंड पैनड्राइव (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनड्राइव (1 जी.बी.) 226 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 227 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (1 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.)	212	रेनोल्ड पैन रीफिल		
215 यूनीबाल विजन एलाइट पैन 216 जैट स्ट्रीम पैन रीफिल 217 पेंटेक रोलर जैल पैन 218 यूनीबाल सिगनो ब्राड पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूनीबाल जिरको यू.बी106जैड पैन 222 ट्रांसैंड पैनड्राइव (1 जी.बी.) 223 ट्रांसैंड पैनड्राइव (2 जी.बी.) 224 ट्रांसैंड पैनड्राइव (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनड्राइव (2 जी.बी.) 226 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 227 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.)	213	लोग बुक रजिस्टर (12 क्वायर)		
216 जैट स्ट्रीम पैन रीफिल 217 पेंटेक रोलर जैल पैन 218 यूनीबाल सिगनो ब्राड पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूनीबाल जिरको यू.बी106जैंड पैन 222 ट्रांसैंड पैनड्राइव (1 जी.बी.) 223 ट्रांसैंड पैनड्राइव (2 जी.बी.) 224 ट्रांसैंड पैनड्राइव (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनड्राइव (2 जी.बी.) 226 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 227 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (1 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.)	214	अल्फाबेटिकल रजिस्टर		
217 पेंटेक रोलर जैल पैन 218 यूनीबाल सिगनो ब्राड पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूनीबाल जिरको यू.बी106जैड पैन 222 ट्रांसैंड पैनड्राइव (1 जी.बी.) 223 ट्रांसैंड पैनड्राइव (2 जी.बी.) 224 ट्रांसैंड पैनड्राइव (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनड्राइव (1 जी.बी.) 226 आईबाल पैनड्राइव (2 जी.बी.) 227 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (1 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.) 230 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.)	215	यूनीबाल विजन एलाइट पैन		
218 यूनीबाल सिगनो ब्राड पैन 219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूनीबाल जिरको यू.बी106जैंड पैन 222 ट्रांसैंड पैनड्राइय (1 जी.बी.) 223 ट्रांसैंड पैनड्राइय (2 जी.बी.) 224 ट्रांसैंड पैनड्राइय (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनट्राइय (1 जी.बी.) 226 आईबाल पैनट्राइय (2 जी.बी.) 227 आईबाल पैनट्राइय (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनट्राइय (1 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनट्राइय (4 जी.बी.) 230 किंग्सटन पैनट्राइय (4 जी.बी.)	216	जैट स्ट्रीम पैन रीफिल		
219 मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन 220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूनीबाल जिरको यू.बी106जैड पैन 222 ट्रांसैंड पैनड्राइव (1 जी.बी.) 223 ट्रांसैंड पैनड्राइव (2 जी.बी.) 224 ट्रांसैंड पैनड्राइव (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनड्राइव (1 जी.बी.) 226 आईबाल पैनड्राइव (2 जी.बी.) 227 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (1 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.) 230 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.)	217	पेंटेक रोलर जैल पैन		
220 पार्कर पैन रीफिल 221 यूनीवाल जिरको यू.वी106जैंड पैन 222 ट्रांसैंड पैनड्राइव (1 जी.वी.) 223 ट्रांसैंड पैनड्राइव (2 जी.वी.) 224 ट्रांसैंड पैनड्राइव (4 जी.वी.) 225 आईवाल पैनड्राइव (1 जी.वी.) 226 आईवाल पैनड्राइव (2 जी.वी.) 227 आईवाल पैनड्राइव (4 जी.वी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (1 जी.वी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.वी.) 230 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.वी.)	218	यूनीबाल सिगनो ब्राड पैन		
221 यूनीबाल जिरको यू.बी106जैड पैन 222 ट्रांसैंड पैनड्राइव (1 जी.बी.) 223 ट्रांसैंड पैनड्राइव (2 जी.बी.) 224 ट्रांसैंड पैनड्राइव (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनड्राइव (1 जी.बी.) 226 आईबाल पैनड्राइव (2 जी.बी.) 227 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (1 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.) 230 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.)	219	मोन्टेक्स कल्यू जैल पैन		
222 ट्रांसैंड पैनड्राइव (1 जी.बी.) 223 ट्रांसैंड पैनड्राइव (2 जी.बी.) 224 ट्रांसैंड पैनड्राइव (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनड्राइव (1 जी.बी.) 226 आईबाल पैनड्राइव (2 जी.बी.) 227 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (1 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.) 230 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.)	220	पार्कर पैन रीफिल		
223 ट्रांसैंड पैनड्राइव (2 जी.बी.) 224 ट्रांसैंड पैनड्राइव (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनड्राइव (1 जी.बी.) 226 आईबाल पैनड्राइव (2 जी.बी.) 227 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (1 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.) 230 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.)	221	यूनीबाल जिरको यू.बी106जैड पैन		
224 ट्रांसैंड पैनड्राइव (4 जी.बी.) 225 आईबाल पैनड्राइव (1 जी.बी.) 226 आईबाल पैनड्राइव (2 जी.बी.) 227 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (1 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.) 230 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.)	222	ट्रांसैंड पैनड्राइव (1 जी.बी.)		
225 आईबाल पैनड्राइव (1 जी.बी.) 226 आईबाल पैनड्राइव (2 जी.बी.) 227 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (1 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.) 230 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.)	223	ट्रांसैंड पैनड्राइव (2 जी.बी.)		
226 आईबाल पैनड्राइव (2 जी.बी.) 227 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (1 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.) 230 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.)	224	ट्रांसैंड पैनड्राइव (४ जी.बी.)		
227 आईबाल पैनड्राइव (4 जी.बी.) 228 किंग्सटन पैनड्राइव (1 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.) 230 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.)	225	आईबाल पैनड्राइव (1 जी.बी.)		
228 किंग्सटन पैनड्राइव (1 जी.बी.) 229 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.) 230 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.)	226			
229 किंग्सटन पैनड्राइव (2 जी.बी.) 230 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.)	227	आईबाल पैनड्राइव (४ जी.बी.)		
230 किंग्सटन पैनड्राइव (4 जी.बी.)	228	किंग्सटन पैनड्राइव (1 जी.बी.)		
	229	किंग्सटन पैनड्राइव (२ जी.बी.)		
231 शोर्टहैंड पैसिल	230	किंग्सटन पैनड्राइव (४ जी.बी.)		
	231	शोर्टहैंड पैसिल		

		T	<u> </u>	
232	डस्टर ग्रे (मजरी क्लॉथ) (36''x36'')			
233	रंगीप फाइल कवर (छपे हुए) (सेंपल)			
234	एक्साइड यू.पी.एस. बैटरी (12 वो., 7 ए.एच.)			
235	सीडी बॉक्स/कंटेनर - 20 सीडीज के लिए			
236	किंग्सटन पैनड्राइव (8 जी.बी.)			
237	किंग्सटन पैनड्राइव (१६ जी.बी.)			
238	सोलो डैस्क आर्गनाइजर			
239	स्टेंप पैड इंक बोतल (छोटा साइज)			
240	टेबल सपंज			
241	रबड़ बैंड पैकेट (छोटा साइज रबड़)			
242	रबड़ बैंड पैकेट (बड़ा साइज रबड़)			
243	फोल्डिंग छाता (बड़ा साइज)			
244	सेलो टेप फोम			
245	केलकुलेटर (मध्यम आकार)			
246	पेंसिल टंबलर			
246	टेबल टॉप ग्लास			
248	रजिस्टर लेदर बाउंड 20 क्वायर			
249	रिफिल लिंक बी-2010			
250	कंप्यूटर स्पीकर			
251	हरिसन ब्रास ताला (मध्यम)			
252	हरिसन ब्रास ताला (बड़ा)			
253	कैसियो केल्कूलेटर (पॉकेट साइज)			
254	पैन स्टैंड			
	(4 पैन, डेटर, पेपर रोल, पिन बॉक्स के साथ)			
255	एक्सट्रनल हाई डिस्क			
	(500 जीबी) सीगेट/डब्ल्यू.डी.			
256	एक्सट्रनल हाई डिस्क (1 टीबी) सीगेट/डब्ल्यू.डी.			
257	जेटर पैन			
258	मोन्टेक्स टिंटा जैल पैन			
259	मोन्टेक्स प्लेटिमा जैल पैन			
260	मोन्टेक्स मर्करी जैल पैन			
261	मोन्टेक्स हाई-पावर 0.5 फाइन जंबो बाल पैन			
262	छाता बड़ा साइज बिना फोल्डिंग के (12 स्पोक्स)			
263	टेप डिसपेंसर			
264	डिसपेंसर के लिए सेलो टेप			
		l		

265	डिस्पोजेबल ग्लास		
266	बाइंडर आयरन क्लिप्स (25 मि.मी.)		
267	बाइंडर आयरन क्लिप्स (32 मि.मी.)		
268	बाइंडर आयरन क्लिप्स (41 मि.मी.)		
269	एक्सट्रनल हार्ड डिस्क का कवर		
270	रंगीन गिफ्ट रैपिंग पेपर शीट		
271	कोर्डलैस बैल		
272	ईगल/मिल्टन स्टील फ्लास्क - 1 लीटर		
273	ईगल/मिल्टन स्टील फ्लास्क - 2 लीटर		
274	एक दर्जन पीले डस्टर (बड़ा आकार 40''x40'')		
	– हेवी और अच्छी क्वालिटी के कार साफ करने		
	के लिए		
275	इंगेजमेंट स्टैंड	·	